

(130)

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

167] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 29, 1969/कार्तिक 7, 1891

No. 167] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 1969/KARTIKA 7, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October 1969

S.R. 2553.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Roller Mills Wheat Products (Ex-mill) Price Control Order, 1969, namely:—

This Order may be called the Roller Mills Wheat Products (Ex-mill) Order (Third Amendment) Order, 1969.

It shall come into force at once.

2. In the Roller Mills Wheat Products (Ex-mill) Price Control Order, 1969, in Table I, for the existing entries under column (6), the following entries shall respectively be substituted, namely:—

“109.00
105.00
84.00
81.00
35.00”.

[No. 201(GEN)(1). 1105/69-PY.II.]
R BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.